

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 मार्च 2010—चैत्र 1, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. 1959-108-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19 मार्च, 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१०.

[ दिनांक १९ मार्च, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक २२ मार्च, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

वित्तीय वर्ष २००९-२०१० की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम .

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१० है.

संक्षिप्त नाम.

वित्तीय वर्ष  
२००९-२०१०  
के लिए राज्य  
की संचित  
निधि में से  
६१,३७,९६,०६,३००  
रुपयों का दिया  
जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग छः हजार एक सौ सैंतीस करोड़ छियानबें लाख छः हजार तीन सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत वित्तीय वर्ष २००९-२०१० के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

**अनुसूची**  
( धारा २ और ३ देखिये )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व पूँजी	७,०२,५६,००० २,००,००,०००	४५,५५,००० ०	७,४८,११,००० २,००,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	१३,२०,०००	०	१३,२०,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	६३,३६,५३,०००	०	६३,३६,५३,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व पूँजी	६७,३८,००० १५,४०,०००	० ०	६७,३८,००० १५,४०,०००
०५.	जेल	राजस्व	११,६१,५४,०००	०	११,६१,५४,०००
०६.	वित्त	राजस्व	२००	०	२००
०७.	दाणिज्यिक कर	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१,३१,११,५७,६००	०	१,३१,११,५७,६००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	१५,९५,०००	०	१५,९५,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
१०.	वन	राजस्व	९६,८१,१४,१००	०	९६,८१,१४,१००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	४,८३,४३,०००	०	४,८३,४३,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	१,१६,३९,०४,०००	०	१,१६,३९,०४,०००
		पूंजी	३८,५६,०९,२५,०००	०	३८,५६,०९,२५,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	२५,८२,४५,०००	०	२५,८२,४५,०००
		पूंजी	८७,१९,१४,१००	०	८७,१९,१४,१००
१४.	पशुपालन	राजस्व	१८,६१,३१,०००	१,०५,०००	१८,६२,३६,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२७,०८,०६,०००	०	२७,०८,०६,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	३,०३,५५,०००	०	३,०३,५५,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	२९,४३,१५,२००	०	२९,४३,१५,२००
१८.	श्रम	राजस्व	१५,२१,३२,०००	०	१५,२१,३२,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	६८,१०,३४,०००	०	६८,१०,३४,०००
		पूंजी	१२,५४,८४,०००	०	१२,५४,८४,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	३,१९,३६,०००	०	३,१९,३६,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	राजस्व	१,१७,१५,०००	०	१,१७,१५,०००
२३.	जल संसाधन	राजस्व	४४,७४,८७,०००	०	४४,७४,८७,०००
		पूँजी	२,०५,८५,१४,४००	०	२,०५,८५,१४,४००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	६,३२,१२,०००	०	६,३२,१२,०००
		पूँजी	१,२००	०	१,२००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	२,२५,२२,०००	०	२,२५,२२,०००
२६.	संस्कृति	राजस्व	२,०५,५७,०००	०	२,०५,५७,०००
		पूँजी	१९,००,०००	०	१९,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	१,७८,९०,४७,०००	१,५०,०००	१,७८,९१,९७,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	२३,२१,८६,०००	१५,६१,३६,०००	३८,८३,२२,०००
३०.	ग्रामीण विकास	राजस्व	६८,२०,००,०००	०	६८,२०,००,०००
		पूँजी	४,६८,००,०००	०	४,६८,००,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	७,४४,२०,०००	०	७,४४,२०,०००
३४.	समाज कल्याण	राजस्व	१२,००,०००	०	१२,००,०००
३५.	पुनर्वास	राजस्व	६,१४,०००	०	६,१४,०००
३६.	परिवहन	राजस्व	२,६८,१२,०००	०	२,६८,१२,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व	३०,०००	०	३०,०००
		पूँजी	११,८४,३८,०००	०	११,८४,३८,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१,२०,२६,०२,०००	०
	पूँजी	३५,७४,९१,८००	०
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	४०,७२,८७,०००	०
	पूँजी	२६,८५,८९,०००	०
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूँजी	१२,८०,५९,३००	०
४३. खेल और युवक कल्याण	राजस्व	१,४६,८५,०००	०
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	२४,९९,०००	०
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	२५,००,००,०००	०
	पूँजी	१,०८,३४,५९,२००	०
४७. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	राजस्व	८,४१,०१,०००	०
	पूँजी	४३,००,००,०००	०
४८. नर्मदा घाटी विकास	पूँजी	३८,४९,३९,०००	०
४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	१,१८,१४,०००	०
५२. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३३,३९,०१,०००	०
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	१६,१३,७६,०००	०
५६. ग्रामोद्योग	राजस्व	३,२६,३९,०००	०
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	४०,५३,००,०००	०

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
६२.	पंचायत	राजस्व	९,२७,९७,०००	०	९,२७,९७,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	४५,५३,०००	०	४५,५३,०००
		पूंजी	११,८२,८१,१००	०	११,८२,८१,१००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,०५,५३,००,०००	०	१,०५,५३,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	१७,५३,७०,०००	०	१७,५३,७०,०००
		पूंजी	१००	०	१००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,३४,८०,०२,०००	०	१,३४,८०,०२,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	५०,९३,३८,०००	०	५०,९३,३८,०००
७८.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	६,५३,८९,०००	०	६,५३,८९,०००
८०.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	७२,७३,८०,०००	०	७२,७३,८०,०००
		पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
	योग . .	राजस्व	१६,५९,२३,२४,१००	१६,०९,४६,०००	१६,७५,३२,७०,१००
		पूंजी	४४,६२,६३,३६,२००	०	४४,६२,६३,३६,२००
	वृहद् योग . .		६१,२१,८६,६०,३००	१६,०९,४६,०००	६१,३७,९६,०६,३००

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. 1960-108-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 6 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 19th March, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary)", dated the 22nd March, 2010].

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2009-2010.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2010.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of six thousand one hundred thirty seven crore ninty six lakh six thousand three hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2009-2010 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 61,37,96,06,300 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2009-2010.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
01. General Administration	Revenue	7,02,56,000	45,55,000	7,48,11,000
	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
02. Other expenditure pertaining to General Administration Department.	Revenue	13,20,000	0	13,20,000
	Capital			
03. Police	Revenue	63,36,53,000	0	63,36,53,000
	Capital			
04. Other expenditure Pertaining to Home Department.	Revenue	67,38,000	0	67,38,000
	Capital	15,40,000	0	15,40,000

(१)	(२)	(३)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
05.	Jail	Revenue	11,61,54,000	0	11,61,54,000
06.	Finance	Revenue	200	0	200
07.	Commerical Tax	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	1,31,11,57,600	0	1,31,11,57,600
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department.	Revenue	15,95,000	0	15,95,000
10.	Forest	Revenue	96,81,14,100	0	96,81,14,100
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	4,83,43,000	0	4,83,43,000
12.	Energy	Revenue	1,16,39,04,000	0	1,16,39,04,000
		Capital	38,56,09,25,000	0	38,56,09,25,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development.	Revenue	25,82,45,000	0	25,82,45,000
		Capital	87,19,14,100	0	87,19,14,100
14.	Animal Husbandry	Revenue	18,61,31,000	1,05,000	18,62,36,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub Plan.	Revenue	27,08,06,000	0	27,08,06,000
16.	Fisheries	Revenue	3,03,55,000	0	3,03,55,000
17.	Co-operation	Revenue	29,43,15,200	0	29,43,15,200
18.	Labour	Revenue	15,21,32,000	0	15,21,32,000
20.	Public Health Engineering	Revenue	68,10,34,000	0	68,10,34,000
		Capital	12,54,84,000	0	12,54,84,000



(१)	(२)	(३)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
21.	Housing and Environment	Revenue	3,19,36,000	0	3,19,36,000
22.	Urban Administration and Development-Urban Bodies	Revenue	1,17,15,000	0	1,17,15,000
23.	Water Resources Department	Revenue	44,74,87,000	0	44,74,87,000
		Capital	2,05,85,14,400	0	2,05,85,14,400
24.	Public Works-Roads and Bridges	Revenue	6,32,12,000	0	6,32,12,000
		Capital	1,200	0	1,200
25.	Mineral Resources	Revenue	2,25,22,000	0	2,25,22,000
26.	Culture	Revenue	2,05,57,000	0	2,05,57,000
		Capital	19,00,000	0	19,00,000
27.	School Education (Primary Education)	Revenue	1,78,90,47,000	1,50,000	1,78,91,97,000
28.	State Legislature	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	23,21,86,000	15,61,36,000	38,83,22,000
30.	Rural Development	Revenue	68,20,00,000	0	68,20,00,000
		Capital	4,68,00,000	0	4,68,00,000
32.	Public Relations	Revenue	7,44,20,000	0	7,44,20,000
34.	Social Welfare	Revenue	12,00,000	0	12,00,000
35.	Rehabilitation	Revenue	6,14,000	0	6,14,000
36.	Transport	Revenue	2,68,12,000	0	2,68,12,000
37.	Tourism	Revenue	30,000	0	30,000
		Capital	11,84,38,000	0	11,84,38,000

(१)	(२)	(३)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	1,20,26,02,000	0	1,20,26,02,000
		Capital	35,74,91,800	0	35,74,91,800
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	40,72,87,000	0	40,72,87,000
		Capital	26,85,89,000	0	26,85,89,000
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	12,80,59,300	0	12,80,59,300
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	1,46,85,000	0	1,46,85,000
44.	Higher Education	Revenue	24,99,000	0	24,99,000
45.	Minor Irrigation Works	Revenue	25,00,00,000	0	25,00,00,000
		Capital	1,08,34,59,200	0	1,08,34,59,200
47.	Technical Education and Training	Revenue	8,41,01,000	0	8,41,01,000
		Capital	43,00,00,000	0	43,00,00,000
48.	Narmada Valley Development	Capital	38,49,39,000	0	38,49,39,000
49.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	1,18,14,000	0	1,18,14,000
52.	Financial assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	33,39,01,000	0	33,39,01,000
55.	Women and Child Development	Revenue	16,13,76,000	0	16,13,76,000
56.	Rural Industry	Revenue	3,26,39,000	0	3,26,39,000
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	40,53,00,000	0	40,53,00,000
62.	Panchayat	Revenue	9,27,97,000	0	9,27,97,000
64.	Scheduled Castes Sub Plan	Revenue	45,53,000	0	45,53,000
		Capital	11,82,81,100	0	11,82,81,100

(१)	(२)	(३)		
		Rs.	Rs.	Rs.
66.	Welfare of Backward Classes			
	Revenue	1,05,53,00,000	0	1,05,53,00,000
67.	Public Works-Buildings			
	Revenue	17,53,70,000	0	17,53,70,000
	Capital	100	0	100
75.	Financial assistance to Urban bodies			
	Revenue	1,34,80,02,000	0	1,34,80,02,000
77.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)			
	Revenue	50,93,38,000	0	50,93,38,000
78.	Horticulture and Food Processing			
	Revenue	6,53,89,000	0	6,53,89,000
80.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	72,73,80,000	0	72,73,80,000
	Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
	Total			
	Revenue ..	16,59,23,24,100	16,09,46,000	16,75,32,70,100
	Capital ..	44,62,63,36,200	0	44,62,63,36,200
	<b>Grand Total ..</b>	<b>61,21,86,60,300</b>	<b>16,09,46,000</b>	<b>61,37,96,06,300</b>